



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 10.06.2022

1-थाना कासना पुलिस द्वारा दुकान का शटर काटकर मोबाइल फोन चोरी करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए मोबाइल फोन चोरी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 112 मोबाइल फोन व शटर काटने के उपकरण 01 लॉक कटर, 01 पेचकस, 01 छैनी बरामद।

दिनांक 31-05-2022 को वादी यतेन्द्र नागर पुत्र काशीराम निवासी ग्राम पीपलका, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर द्वारा कासना कस्बा बस स्टैण्ड के पास स्थित अपनी मोबाइल की दुकान का शटर काटकर अज्ञात चोरों द्वारा मोबाइल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कासना पर मु0अ0सं0-142/2022 धारा 380,457 भादवि0 पंजीकृत कराया गया था जिसमें तत्काल मोबाइल बरामदगी एवं घटना का सफल अनावरण करने हेतु टीम का गठन किया गया था गठित टीम द्वारा अपने अथक प्रयास व परिश्रम से दिनांक 09.06.2022 को घटना का सफल अनावरण करते हुये मोबाइल फोन चोरी करने वाले 04 अभियुक्त 1.आनन्द पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम नत्थापुरा झोरियां, थाना पिनाहट, जनपद आगरा 2.हीरा सिंह उर्फ हीरेश पुत्र किताब सिंह निवासी ग्राम नत्थापुरा झोरियां, थाना पिनाहट, जनपद आगरा 3.संजीव पुत्र दयाराम निवासी ग्राम जेवर खादर मढैया, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर 4.घनश्याम पुत्र छोटे लाल निवासी नत्थापुरा झोरियां, थाना पिनाहट, जनपद आगरा को थाना क्षेत्र के साईट-5 के गेट नं0 02 के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 112 मोबाइल फोन, शटर काटने के उपकरण 01 लॉक कटर, 01 पेचकस, 01 छैनी बरामद हुए है।

### **अभियुक्तों का विवरण:**

- 1.आनन्द पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम नत्थापुरा झोरियां, थाना पिनाहट, जनपद आगरा।
- 2.हीरा सिंह उर्फ हीरेश पुत्र किताब सिंह निवासी ग्राम नत्थापुरा झोरियां, थाना पिनाहट, जनपद आगरा।
- 3.संजीव पुत्र दयाराम निवासी ग्राम जेवर खादर मढैया, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।
- 4.घनश्याम पुत्र छोटे लाल निवासी नत्थापुरा झोरियां, थाना पिनाहट, जनपद आगरा।

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:**

मु0अ0सं0-142/2022 धारा 380,457,411 भादवि0 थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।

## बरामदगी का विवरण:

1. अभियुक्त आनंद के कब्जे से चोरी किये गये 32 मोबाइल फोन।
2. अभियुक्त हीरा के कब्जे से 26 मोबाइल फोन।
3. अभियुक्त संजीव के कब्जे से 30 मोबाइल फोन।
4. अभियुक्त घनश्याम के कब्जे से 24 मोबाइल फोन।
5. शटर काटने के उपकरण 01 लॉक कटर, 01 पेचकस, 01 छैनी।



## 2-बीटा-2 पुलिस द्वारा सोसाइटी में फ्लैटों में चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पर्स व पीली धातु के आभूषण (आर्टीफिशियल) बरामद।

दिनांक 10.06.2022 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा सोसाइटी में फ्लैटों में चोरी करने वाला अभियुक्त दीपक पुत्र संजीव कुमार निवासी जी-14/3, सेक्टर-49, नोएडा वर्तमान निवासी ए-904, निंबस-1, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर को निंबस-1 सोसाइटी के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन एमआई रेड वाई-1, 01 आधार कार्ड, 01 पर्स व पीली धातु के आभूषण (आर्टीफिशियल) बरामद हुए हैं।

अभियुक्त शातिर किस्म का चोर है जो कि रात्रि में रेकी करके सोसाइटी में स्थित फ्लैटों से मोबाइल एवं अन्य घरेलू सामान की चोरी करता है। अभियुक्त ने दिनांक 08.06.2022 की रात्रि/दिन में निंबस-1 सोसाइटी स्थित दो फ्लैटों ए-402 व ए-703 में चोरी की थी।

## अभियुक्त का विवरण:

दीपक पुत्र संजीव कुमार निवासी जी-14/3, सेक्टर-49, नोएडा वर्तमान निवासी ए-904, निंबस-1, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

## पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 399/2022 धारा 380/454/411 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

## बरामदगी का विवरण:

- 1.चोरी का मोबाइल फोन एमआई रेड वाई-1
- 2.01 आधार कार्ड
- 3.01 पर्स
- 4.पीली धातु के आभूषण (आर्टीफिशियल)

